

### METAL COATINGS (INDIA) LTD.

Works II: 113, HSIIDC Indl. Estate, Sector - 59, Faridabad - 121 004 Phones: 09999972371, Fax: 0129-2307422



Date: 1st September, 2019

To, **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers

1<sup>st</sup> Floor, Dalal Street

Mumbai- 400 001

Sub.: Newspaper Publication - Notice of AGM, Remote E-voting & Book Closure

Ref.: Scrip Code - 531810; Scrip Id - METALCO

Dear Sir/Madam,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed herewith the copies of Notice of 25<sup>th</sup> Annual General Meeting, Remote E-voting & Book Closure published by the Company by way of advertisement, in newspapers 'Financial Express' (English) and 'Jansatta' (Hindi).

You are requested to kindly take the above information on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Metal Coatings (India) Limited

Piyush Jain

Company Secretary & Compliance Officer

**FE SUNDAY** 

# **Gujarat Informatics Limited**

Block No. 2, 2nd Floor, C & D Wing, Karmayogi Bhavan, Sector-10A. Gandhinagar. Enabling e-Governance Phone:079-23256022, Fax:079-23238925 Website: http://gil.gujarat.gov.in NOTICE INVITING BIDS

GIL invites bids through E-tendering for Purchase of Proton Precession Magnetometer on behalf of Institute of Seismological Research, Gandhinagar, Department of Science & Technology, Govt. of Gujarat. (Tender No. HWT300819582). Interested parties may visit http://www.gil.gujarat.gov.in or https://www.gil.nprocure.com for eligibility criteria & more details about the bids.

Managing Director

SAMTEX FASHIONS LIMITED CIN: L17112UP1993PLC022479 Regd Office: Plot No. 163, Udyog Vihar, Greater Noida, 201308, Distt. Gautam Buddha Nagar, U.F. Website: www.samtexfashions.com NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47of SEBI (Listing Obligations and Disclosure) Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 7th September, 2019 at 4.00 P.M at the Corporate Office at New Delhi, interalia, to consider and approve the Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30.06.2019

For SAMTEX FASHIONS LIMITED Place: New Delhi KAMINI GUPTA Date: 31.08.2019 Company Secretary & GM Finance

### unitech

UNITECH LIMITED CIN: L74899DL1971PLC009720 Regd. Office: Basement, 6, Community Centre, Saket, New Delhi-110 017 Telefax: +91 11 26857338 E-mail: share.dept@unitechgroup.com

#### Notice-Adjournment of **Board Meeting**

Web: www.unitechgroup.com

Company has requested for some more time to comply with the requirements of the above said newly inserted Regulation.

In view of the above, the Chairman of the Company after consultation with other Directors, Auditors and Chief Financial Officer, decided to further postpone/adjourn the Board meeting, which was adjourned for today, to

Financial Results for the guarter ended 30° June, 2019 and other related business will now be considered on Saturday, 14"

it is hereby informed that the period of Closure of trading window will now end 48 hours after the results made public on 14" September,

www.unitechgroup.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com For Unitech Limited

Gurugram Ramesh Chandra 31" August, 2019

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY (University under Section-3 of UGC Act 1956)

Elite Status & Centre of Excellence – Govt. Of Maharashtra NBA Accredited; 'A' Grade by MHRD; UNIVERSITY PAR EXCELLENCE Matunga, Mumbai- 400 019, India

NOTICE OF SPOT ROUND OF ADMISSION

The spot round for the admission to M.Tech. Bioprocess Technology, M. Tech. Food Biotechnology and M. Tech. Pharmaceutical Biotechnology course vacant seats after admission conducted through JNU will be held on **September 04, 2019**. For more details and status of vacant seats kindly visit Institute's website www.ictmumbai.edu.in Registrar

Oriental Aromatics Ltd (Formerly Camphor and Allied Products Limited)

CIN: L17299MH1972PLC285731 Regd. Office: 133 Jehangir Building, 2nd Floor, M.G. Road Mumbai-400 001, Maharashtra, Tel: 022 43214000

Email: cs@orientalaromatics.com

Website: www.orientalaromatics.com

#### NOTICE

Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting (AGM) of Oriental Aromatics Limited (the Company) will be held on Wednesday, 25th September, 2019 at 11:00 a.m. at M.C. Ghia Hall, Bhogilal Hargovindas Building, 4th Floor, 18/20, K. Dubash Marg, Kala Ghoda, Fort, Mumbai- 400001 to transact the business set out in the Notice convening AGM which has been sent to all members along with the Annual Report 2018-2019 at their registered address/e-mail id in the permitted mode. The same are also available on the website of the Company at www.orientalaromatics.com. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 31st August, 2019.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 18th September, 2019 to 25th September, 2019 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the dividend for Financial year 2018-2019.

Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder, & Regulation 44 of SEBI (Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing electronic voting (e-voting) facility for transacting businesses contained in the Notice through Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The cut-off date for determining the eligibility of Members holding shares either in physical form or dematerialized form to vote by electronic means or at the AGM is 18th September, 2019. All the members are informed that:

- The remote e-voting shall commence on Saturday, 21st September, 2019 at 9.00 a.m. and shall end on Tuesday, 24th September, 2019 at 5.00 p.m. E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 24th
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 18th September, 2019 may obtain the log-in ID and password by sending a request at www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdsl.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user-ID and password can be used for casting vote;
- Members may note that a) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdsl.com or call on toll free no. 1800-22-5533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, Marathon Futurex, A-Wing, 25th floor, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai -400013

By Order of the Board of Directors For Oriental Aromatics Limited Kiranpreet Gil Company Secretary & Compliance Officer

**Reli**Ance

MUTUAL FUND



Sponsors: Reliance Capital Nippon Life Insurance Company

### RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED

(CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: Reliance Centre, 7th Floor, South Wing, Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai - 400 055. Tel No. +91 022 4303 1000 • Fax No. +91 022 4303 7662 • www.reliancemutual.com

# NOTICE NO. 59

**Record Date September 06, 2019** 

Notice is hereby given that the Trustee of Reliance Mutual Fund ("RMF") has approved declaration of dividend on the face value of Rs. 10/- per unit in the undernoted Scheme of RMF, with September 06, 2019 as the record date:

Name of the Scheme(s)	Dividend (₹ per unit)*	NAV as on August 29, 2019 (₹ per unit)
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval Fund - Series III - Dividend Option	0.1422	10.1543
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval Fund - Series III - Institutional Plan - Dividend Option	0.1424	10.1545
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval Fund - Series III - Direct Plan - Dividend Option	0.1450	10.1513

\*As reduced by the amount of applicable statutory levy.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Scheme will fall to the extent of payout, and statutory levy, if any. \*The dividend payout will be to the extent of above mentioned dividend per unit or the difference of NAV from the last Specified Transaction Date (Ex. NAV) to the Record Date mentioned above, whichever is

The specified Transaction period for Reliance Interval Fund - Quarterly Interval Fund - Series III is on 6th and 9th September, 2019 (both business days). The following shall be applicable for application received during the specified transaction period.

# For Subscriptions including Switch-ins under Dividend Option

In respect of valid applications for subscriptions received up to 3.00 p.m. on the aforesaid Record Date along with a local cheque or a demand draft payable at par at the place where the application is received, the Ex-Dividend NAV of the day on which application is received shall be applicable. The investors will not be eligible for dividend declared, if any, on the aforesaid Record Date.

In respect of valid applications for subscription received after 3 p.m. on the aforesaid Record Date and/or up to 3.00 p.m. on the second day of the Specified Transaction Period the closing NAV of the said second day shall be applicable; In respect of valid applications received after 3.00 p.m. on the second day of the Specified Transaction Period the closing NAV of the next working day shall be applicable, provided such a day is/has been declared as a Specified Transaction day for the fund. Otherwise, the application will be liable for rejection.

In respect of purchase of units in Income/ Debt Oriented scheme with amount equal to or more than Rs 2 lakhs, the applicable NAV shall be subject to the provisions of SEBI Circular Cir/IMD/DF/19/2010 dated November 26, 2010 and CIR/IMD/DF/21/2012 dated September 13, 2012 on uniform cut-off timings for applicability of NAV. With regard to Unit holders who have opted for Dividend Reinvestment facility, the dividend due will be reinvested by allotting Units for the Income distribution/ Dividend amount at the prevailing Ex-Dividend NAV per Unit on the record date.

# For Redemptions including Switch-out under Dividend Option

In respect of valid applications received up to 3 p.m. by the Mutual Fund, on the aforesaid Record Date the Ex-Dividend NAV of the date of receipt of application shall be applicable and the investors will be eligible for the dividend declared on the aforesaid Record Date. In respect of valid applications received after 3 p.m. on the aforesaid Record Date and/or up to 3.00 p.m. on the second day of the Specified Transaction Period the closing NAV of the said second day shall be applicable.

of beneficial owners maintained by the Depositories under dividend plan/option of the Scheme as on record date.

For units in demat form: Dividend will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the statement

All unit holders under the dividend plan/option of the above mentioned scheme, whose names appear on the register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the dividend.

> For RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED (Asset Management Company for RELIANCE MUTUAL FUND)

August 31, 2019

**Authorised Signatory** 

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds



CIN: L74899DL1994PLC063387 Registered Office: 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019

E-mail ID: info@mcilindia.net; Website: www.mcil.net, Tel: +91-11-41808125 NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E- VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 25th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be hel on Tuesday, 24<sup>h</sup> September, 2019 at 10:30 a.m. (IST) at Hotel - The Legend INN, E - 4, East of Kailash, New Delhi-110 06

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip for the financial year 2018-19 have been sent in electronic mode t Members whose e-mail IDs are available with the Company/Depository Participant and Physical copies of the same hav been sent to those Members who have either not registered their e-mail ids or had requested for a physical copy of the Report. The said Annual Report is available on the Company's website viz., www.mcil.net and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during business hours up to the date of the Meeting. T Dispatch of Annual Reports / e-communication to Members have been completed on 30th August, 2019. The Company is pleased to provide a facility to its members to exercise their right to vote on resolutions proposed to considered at the AGM electronically through electronic voting (e-voting) services facilitated by the Link Intime India Priva

Limited (LIIPL). Members holding shares either in Physical or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 17h Septembe 2019 may cast their vote electronically on the businesses as specified in the Notice of AGM. All the members are inform (i) The remote e-voting period shall commence on Friday, 20th September, 2019 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Monda 23rd September, 2019 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by LIIPL after the aforesa

- date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice AGM and holding shares as of cut-off date i.e. 17th September 2019, may obtain the login ID and password by send a request at enotices@linkintime.co.in or cs@mcilindia.net. However, if a person is already registered with LIIPL
- a) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall I
- c) A person whose name is recorded in the register of members / beneficial owners as on the cut-off date only sh be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the AGM through ballot pape The Notice of AGM is available on the Company's website: www.mcil.net and on the website of LIIPL

In case of queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available https://instavote.linkintime.co.in, under help section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or contact

he Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from Wednesday, 18th Septembe 2019 to Tuesday, 24th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company and for determini the entitlement of the shareholders to final Dividend for financial year 31st March, 2019 For Metal Coatings (India) Limite

Place: New Delhi Date: 31stAugust, 2019

Company Secretary & Compliance Office

Piyush Jair

SHARP INDIA LIMITED

Regd Office: Gat No.686/4, Koregaon Bhima, Taluka: Shirur, Dist. Pune - 412216 Phone No.: 02137-252417 Fax No.02137-252453 Website: www.sharpindialimited.com Email: Chandranil.belvalkan@sil.sharp-world.com

#### NOTICE OF 34" AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

CIN: L36759MH1985PLC036759

Notice is hereby given that the 34" Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Wednesday, 25th September 2019 at 12:00 noon, at the Registered Office of the Company situated at Gat No. 686/4, Koregaon Bhima, Taluka: Shirur, Dist, Pune 412216 to transact the business as set out in the notice

The 34" Annual Report of the company containing notice of the 34" Annual General Meeting along with the explanatory statement, Director' Report, Auditor's Report, Audited Accounts etc. of the company for the financial year ended 31" March 2019 has been couriered to the members at their postal addresses or emailed at email addresses registered with the company/ depository participant as

Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule No. 20 of the Companies (Management & Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, the items of the businesses to be transacted at the aforesaid 34" Annual General meeting of the Company may be transacted by electronic voting (remote e-voting Facility) through the e- voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

- a) The remote e-voting will commence on Sunday, 22<sup>rd</sup> September 2019 at 9.00 am and will end on Tuesday, 24" September 2019 at 5.00 pm. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The company is providing the e-voting facility to all the members holding shares in physical or dematerialized form as of the cutoff date - Wednesday, 18" September 2019.
- b) Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the 34" AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. 18th September 2019 may obtain the login ld and password by sending a request at helddesk.evoting@cdslindia.com. However if the member is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for e-voting.
- Facility of voting through Ballot paper shall be made available at the Meeting venue. Members who have voted through remote - e-voting facility may attend the meeting but shall not be entitled to vote at the 34" Annual General Meeting.
- d) A copy of the 34<sup>th</sup> AGM Notice is available on the website of the Company at www.sharpindialimited.com. A copy of the 34" AGM Notice is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com
- e) In case of grievances or queries on remote e-voting procedures members may refer to the frequently asked questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under the help section or may email to helddesk.evoting@cdslindia.com or may write an email to Chandranil.belvalkar@sil.sharp-world.com

Pursuant to section 91 of the Companies' Act, 2013 read with Rule No.10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, and the Register of Members and the Share Transfer Books of the company shall remain closed from Thursday, 19th September 2019 up to Wednesday, 25th September, 2019. (both days inclusive) for the purpose of 34" Annual General Meeting of the Company.

> By the order of the Board of Directors For Sharp India Limited Chandranil Belvalkar Company Secretary



#### ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED Registered Office: 102, Ganga Chambers, 6A/1, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi-110005

Tel No.: 022 - 6216 6999 | Fax No.: 022 - 2263 0434 CIN: L74899DL1994PLC059009 | Website: www.afsl.co.in | Email ID: info@afsl.co.in

# NOTICE

Notice is hereby given that: A. ANNUAL GENERAL MEETING:

Place : Pune

Date : 01.09.2019

The 25th Annual General Meeting ("AGM") of Aryaman Financial Services Limited ("the Company") is scheduled on Wednesday, September 25, 2019 at 10.00 A.M. at Vihara Innovation Campus, D-57, Chattarpur Enclave, 100 ft. Road, New Delhi – 110 074 to transact the business specified in the Notice of AGM dated August 31, 2019. The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year (F.Y) 2018-19 have been sent to Members in electronic form to the Email-IDs registered with their Depository Participants (in case of electronic shareholding)/the company's Registrar and share transfer Agent (in case of physical shareholding). For members whose Email IDs are not registered, physical copy of the Notice along with Annual Report is sent by permitted mode. This Notice and Annual Report may also be accessed on the website of the company at www.afsl.co.in and website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') www.evotingindia.com. The copies of the aforesaid documents are available for inspection at the registered office of the Company on all the working days, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 11.00 a.m

B. REMOTE E-VOTING:

and 1.00 p.m upto the date of the AGM.

In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made there under and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The Company has offered remote evoting facility for transacting the business through Central Depository Services Limited (CDSL) to enable the members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the company with CDSL to facilitate Remote evoting. The details pursuant to the act are as under:

- The Members whose name appears on the Register of members/Beneficial Owners maintained by the Depositories either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Wednesday, September 18, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and voting to be held at AGM on the business specified in the Notice of AGM of the Company. Person(s) who is not Member as on the record date should treat this Notice of AGM for information purpose only.
- Remote e-voting period commences on Sunday, September 22, 2019 (9:00 A.M.) and ends on Tuesday, September 24, 2019 (5:00 P.M.) and thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by CDSL The Member who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again and members attending the meeting who
- have not cast their vote through e-voting shall be able to vote at AGM by ballot papers. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date may write to CDSL on the e-mail ID i.e helpdesk.evoting@cdslindia.com requesting for the User ID and password. If the member

is already registered with CDSL for e-voting, the member can use the existing User ID and

Password for casting their vote through Remote e-voting. The detailed procedure pertaining to the User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM. In case of any queries / grievances connected with remote e-voting, Members may

Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager : Central Depository Services (India) Limited.

A Wing, 25th floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013. Email-ID : helpdesk.evoting@cdslindia.com/Toll Free Phone no: 1800 200 5533

C. BOOK CLOSURE: Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEB

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books shall remain closed from Thursday, 19 September 2019 to Wednesday, 25 September 2019 (both days inclusive) for the

Gunjan Kataruka

Company Secretary & Compliance Officer

# smartlink≣

# SMARTLINK HOLDINGS LIMITED

(Formerly known as Smartlink Network Systems Limited) CIN: L67100GA1993PLC001341 Tel.: 0832 2885400 Fax: 0832 2783395

#### Email: Company Secretary@smartlinkholdings.com Website: www.smartlinkholdings.com Regd. Off.: L-7, Verna Industrial Estate, Verna, Salcete, Goa - 403 722

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of Smartlink Holdings Limited ("the Company") will be held on Saturday the 28th day of September, 2019 at 11.00 a.m. at the registered office of the Company at L-7, Verna Industrial Estate, Verna, Salcete, Goa 403722 to transact the business as set forth in the Notice convening AGM.

NOTICE

The electronic copy of the Annual Report for the financial year 2019 containing, inter-alia, Notice of AGM, attendance slip, proxy form and routemap to the venue of AGM, has been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) and physical copy of the same has been sent to all the members at the registered address by permitted mode. The dispatch of AGM Notice and Annual Report has been completed on 30th August, 2019. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2019 is

also available on the Company's website <a href="https://www.smartlinkholdings.com">www.smartlinkholdings.com</a>. The shareholders, who wish to receive the physical copy of Annual Report, may e-mail their request to the Company at Company.Secretary@smartlinkholdings.com or to Registrars of the Company at einward.ris@karvy.com. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013

read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration)

Rules 2014, ("the Rules"), that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday. 17th September, 2019 to Tuesday, 24th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting (AGM). In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members with a facility to cast their vote electronically through Remote e-voting, i.e. from the place other than venue of AGM, through e-voting services provided by Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 21st September, 2019, may cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. All the members are hereby informed that;

The Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means ("remote e-voting");

The remote e-voting period commences on Wednesday,

- 25th September, 2019 at 10.00 a.m. and ends on Friday, 27th September, 2019 at 5.00 p.m.; iii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM is 21st September, 2019;
- iv. The shareholders who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make arrangement of polling papers in this regards at the AGM venue; Any person who acquire shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and

evoting@karvy.com. However if a person is already registered with Karvy for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote; For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the "E-voting Instructions" sent along with the Notice of the AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members

holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2019

may obtain the login ID and password by sending a request at

at the download section of https://evoting.karvy.com or may contact to Mrs. C Shobha Anand, Contact No. 040-67162222, who will address the grievances connected with the voting by electronic means. The results declared along with the report of the scrutinizers shall be placed on the website of the Company and will also be informed to the

may refer the Frequently Asked Questions (FAQS) for members available

By order of the Board of Directors

31st August, 2019 Vema-Goa

Stock Exchanges.

Urjita Damle

# Company Secretary

# CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001, Ph. No. 011-49546000, Corporate office: A-1402, One BKC, 14th Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400051, Ph. No. 022-45036000 Website: www.capitalindia.com, Email ID: secretarial@capitalindia.com Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577

CAPITALINDIA

NOTICE OF 25™ ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 25" (Twenty-Fifth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Capital India Finance Limited ("Company") will be held on Friday, September 27, 2019, at "Magnolia" Habitat World, at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003 at 09:00 A.M. to transact the business(es) set out in the Notice of the AGM.

In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013, read with the relevant

rules made thereunder, the Notice of AGM along with attendance slip, proxy form and polling paper thereof and the Annual Report for the financial year ended 2018-19 has (i) in electronic mode to all those Members, who have registered their e-mail addresses with the Company/Company's Registrar and Share Transfer

Agent/Depository Participant and whose name appears in the register of members/beneficial owners as on August 23, 2019; and (ii) in physical mode, through registered post, to all the Members of the Company whose name appears in the register of members as on August 23, 2019.

The Annual Report for the financial year 2018-19 and the Notice of AGM inter-alia indicating the instructions for voting through electronic means along with attendance slip and proxy form are also available on the website of the Company at https://capitalindia.com and on the website of Karvy Fintech Private Limited (formerly known as KCPL Advisory Services Private Limited ) ("Karvy"), the Registrar and Share Transfer Agent of the Company at https://evoting.karvy.com

(Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members, facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of the business(es) to be transacted at the AGM through remote e-voting facility (i.e. voting electronically from a place other than the venue of the AGM) and the same will be provided by Karvy.

All the Members are hereby informed that: a) The remote e-voting period shall commence on September 24, 2019 (09:00 A.M.) and end on September 26, 2019 (05:00 P.M.). The facility for remote e-voting shall

b) Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialised form as on the cut-off date i.e. September 20, 2019 shall be entitled to avail the

- Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 20, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at secretarial@capitalindia.com and may also contact the Company Secretary & Compliance Officer of the Company or Karvy for any query or assistance in this regard.
- d) The facility of Voting through polling paper shall be made available at the venue of the meeting.
- dematerialised form, as on cut-off date and not casting their vote by way of remote A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting however, the Member shall not be allowed to vote again at
- Once the vote is cast by the Member, the same shall not be allowed to be changed subsequently nor shall the Member be allowed to cast the vote again
- The Notice of AGM is also available on the website of Karvy at https://evoting.karvy.com For any queries, the Members may refer to the Frequently Asked Questions Shareholders and e-voting user manual-Shareholders, available at downloads section of https://evoting.karvy.com or write an email to the Company Secretary

read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members of the Company and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2019 to Friday, September 27, 2019 (both days inclusive), for the purpose of the AGM and for payment of final dividend for the Financial Year 2018-19 (subject to approval of the Members at the

The dividend will be payable to those Members whose names will appear in the Register of Members as on September 20, 2019 ("Record Date"). In respect of the shares held in electronic form, the dividend will be paid to those persons whose names shall appear as beneficial owners as on September 20, 2019, as per details furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India)

Information in this regard is also available on the Company's website at https://capitalindia.com and may also be accessed from the website of BSE Limited at www.bseindia.com.

> Rachit Malhotra Company Secretary & Compliance Officer

epaper.firancia press.com

In furtherance to Notices published on 15" August, 2019 in 'The Financial Express' and on 16" August, 2019 in Jansatta', intimating the date of adjourned Board Meeting for, interalia, approval of Un-audited Financial Results for the quarter ended 30" June, 2019; this is to inform that the process of requirements of newly inserted Regulation 33(3)(h) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is underway, and the accounts department of the

Saturday, 14th September, 2019. Accordingly the items w.r.t. the Un-audited

Further, in view of the aforesaid adjournment

Wealth Sets You Free

Place: Mumbai

Date: 31.08.2019

**DIVIDEND DECLARATION** 

higher. However the payout will be subject to the available distributable surplus in the Scheme as on the Record date.

Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



iii) Members may note that:

be entitled to cast their vote again; and

purpose of 25th Annual General Meeting. For and on behalf of Aryaman Financial Services Limited

Place: Mumbai

Date: 31.08.2019

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Companies

facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the

e) Members of the Company holding shares either in physical form or in

& Compliance Officer of the Company at - secretarial@capitalindia.com, Telephone - +91-11-49546000, Website - https://capitalindia.com and/or at the registered office of the Company. Further notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013,

For Capital India Finance Limited Place: New Delhi Date: August 31, 2019

# कांग्रेस नेता शिवकुमार लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने पेश

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 31 अगस्त।

कर्नाटक से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार धन शोधन के एक मामले में लगातार दूसरे दिन शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह यहां स्थित ईडी मुख्यालय में पेश हुए।

अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामले के जांच अधिकारी ने शुक्रवार को चार घंटे तक उनसे पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। शिवकुमार से दस्तावेजों के साथ कई सवाल पुछे गए।

बंगलुरू से आकर शुक्रवार को ईडी दफ्तर गए। वहां शिवकुमार ने कहा कि वह ईडी की जांच में सहयोग करेंगे। शनिवार को उन्होंने ईडी कार्यालय के बाहर कहा, 'ईडी की पुछताछ में शामिल होना मेरा कर्तव्य है। मैं कानून का सम्मान करता हूं। हम विधायक और कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं।

उन्नाव पीड़िता के

पैरोकार पर हमला,

मामला दर्ज

गुवाहाटी, ३१ अगस्त (भाषा)।

ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) शनिवार को जारी अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) से बाहर रखे गए नामों के आंकड़े से खुश नहीं है और इसमें सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का निर्णय किया है। वर्ष में 1985 में हुए असम समझौते में आसू एक पक्षकार है जिसमें असम में रह रहे अवैध विदेशियों को पहचानने, हटाने और निकालने का प्रावधान है। आसु के महासचिव लुरिनज्योति गोगोई ने कहा, 'हम इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अद्यतन प्रक्रिया में कछ खामियां हैं। हम मानते हैं कि एनआरसी अपूर्ण है। हम एनआरसी की खामियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे।' गोगोई ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अंतिम आंकड़े कई मौकों पर प्रशासन की ओर से घोषित आंकड़ों से मेल नहीं खाते।

आसू के अध्यक्ष दीपंकर कुमार नाथ ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार के पास अवैध

उन्नाव (उप्र) ३१ अगस्त (भाषा)।

उन्नाव बलात्कार कांड की

पीड़िता और विधायक प्रकरण में

विधायक के सहयोगियों के

खिलाफ पीड़िता के चाचा

घुसपैठियों का पता लगाने की पर्याप्त गुंजाइश थी लेकिन वह अपनी निष्क्रियता की वजह से असफल रही। नाथ ने कहा कि हमने एनआरसी में नाम दर्ज कराने के लिए केवल 10 दस्तावेजों को ही वैध मानने की मांग की थी लेकिन सरकार ने 15 दस्तावेजों की अनुमति दी। सरकार ने एनआरसी प्रक्रिया में शामिल संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को लेकर भी आपत्ति नहीं जताई जिससे उन्हें प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता था। आसू अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और उसकी सीमा पुलिस ने संदिग्ध अवैध प्रवासियों के मामलों को विदेशी अधिकरण को नहीं भेजा। साथ ही एनआरसी की प्रक्रिया में शामिल अफसरों के तबादले होते रहे और इस तरह असम सरकार ने एक ऐतिहासिक मौका खो दिया। आसू के प्रमुख सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और वह इस एनआरसी की खामियों को दूर करने पर फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि एनआरसी पर भविष्य का काम भी शीर्ष अदालत की निगरानी में होनी चाहिए।

था। तभी पांच हमलावरों ने पहले पैरोकार (रिप्रेजेंटेटिव) डाइवर पर गुरुवार रात जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पैरोकार का आरोप है कि वह

पीड़िता के वकील के सहायक अधिवक्ता से मिलकर उन्नाव कचहरी से गांव स्थित घर लौट रहा

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

(भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त न्यास)

11, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110 011

लघु अवधि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ( सर्टिफिकेट कोर्स )

भारत सरकार के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निम्नांकित लघु अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों (सर्टिफिकेट कोर्स) में प्रवेश हेत्

डाक्यूमेंट्री एंड एथ्नोग्राफिक फिल्म मेकिंग

फोकलोर एंड इंटेन्जिबल कल्चरल हेरिटेज

इच्छक अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में

osdignca@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अथवा डाक से ओएसडी

(शैक्षणिक) को जमा करवा सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि

09.09.2019 है। निर्धारित आवेदन प्रपत्र, शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित सीटों की

संख्या, शुल्क, पाठ्यक्रम रूपरेखा आदि की जानकारी हमारी वेबसाईट

www.ignca.gov.in.पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु इस नंबर

CIN: L74899DL1994PLC063387

**पंजीकृत कार्यालय :** 912, हेमकूंट चैंबर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली — 110019

E-mail ID: info@mcilindia.net; Website: www.mcil.net, Tel: +91-11-41808125

25वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सुचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 25वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 को 10:3(

बजे पूर्वाः (आईएसटी) में होटल–द लेजेण्ड ईन, ई–4, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065 में आयोजित की जाएगी जिसगे

रजीएम की सूचना, वित्त वर्ष 2018—19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा उपस्थिति पर्ची इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ऐसे सदस्यों को भेर

दी गई है जिनके ईमेल आईडी'ज कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत हैं तथा उसकी भैतिक प्रतियां ऐसे सदस्य को भेजी गई हैं जिन्होंने या तो अपने ई–मेल आईडी पंजीकत नहीं कराए हैं अथवा जिन्होंने रिपोर्ट की भौतिक प्रति के लि

अनुरोध किया है। उक्त वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.mcil.net पर तथा साथ ही निरीक्षण के लिए कम्पनी

यह कम्पनी लिंक इनटाईम ईंडिया प्राईवेट लिमिटेड (LIIPL) द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई–वोटिंग) के माध्य

ते इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम में विचार की जाने वाली प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा

अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है। कट—ऑफ तिथि अर्थात 17 सितम्बर, 2019 को भौतिक या डीमैटीरियलाइज्ड

गद्धित में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर

रिमोट ई—वोटिंग अवधि शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को 9:00 बजे पुर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा सोमवार, 23

सितम्बर, 2019 को 5:00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद मतदान के लिए (LIIPL) द्वारा

रिमोट ई—वोटिंग पद्धति अवरूद्ध कर दी जाएगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित किए हों तथा कम्पनी के सदस्य बने हों तथ

कट—ऑफ तिथि अर्थात 17 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हों वे enotices@linkintime.co.in या cs@mcilindia.ne

पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि काई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से

ही एलऑईआईपीएल में पंजीकृत हों तो मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान युजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं

ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं

ग) जिस व्यक्ति का नाम कट—ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हों, वे ह

पुछताछ के लिए सदस्य सहायता खंड के अंतर्गत https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध Frequently Asked

Questions (FAQ's) तथा ई—वोटिंग मैनुअल देखें या enotices@linkintime.co.in पर एक ई—मेल लिखे या 022—4918600

रस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पस्तकें बधवार 18 सितम्बर, 2019 से मंगलवार 24 सितम्बर, 2019 (दोनें

पीयूष जैन कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिवस सहित) तक कम्पनी की एजीएम तथा 31 मार्च, 2019 के वित्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के लिए शेयरधारकों व

प्रपत्र क

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध

अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम ६ के अधीन

एडीएस करी प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

रिमोट ई–वोटिंग के साथ मत–पत्र द्वारा एजीएम में मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।

एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट : www.mcil.net तथा एलआईआईपीएल

पंजीकृत कार्यालय में सभा की तिथि तक सभी कार्य दिवसों को व्यवसायिक अवधि के दौरान उपलब्ध है। सदस्यों को वार्षिक

ओपन एक्सेस फॉर लाईब्रेरिअन्स

आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।

स्क्रीन राइटिंग

रिसर्च मेथोडोलोजी

011-23388241 पर कॉल करें।

एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

मकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी

https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध हैं।

अधिकारिता सुनिश्चित करने के उददेश्य से बंद रहेंगें।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 31 अगस्त. 2019

क) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे; तथा

रेपोर्ट प्रेषण / ई—कम्युनिकेशन का कार्य 30 अगस्त, 2019 को पुरा कर लिया गया है।

एनआरसी से नाराज 'आसू'

जाएगा सुप्रीम कोर्ट

रास्ते में उसका घेरा और फिर रात में उसके घर पहंचकर उसके साथ मारपीट की व हत्या की धमकी दी। माखी थाना प्रभारी ने सुरक्षा के मद्देनजर पैरोकार का नाम नहीं

# मकदमों की पैरवी करने वाले

जोनल आफिस-दिल्ली नार्थ, दूसरा तल, फैज रोड-1, नई दिलली-110005 फोन नं. 011-28754615, 28754642 ईमेल आईडी : dlirec@corpbank.co.in वेबसाइट : www.corpbank.com शुद्धि–पत्र

यह विज्ञापन जनसत्ता में दिनांक 03.08.2019 को प्रकाशित मेगा ई ऑक्शन सेल नोटिस के संदर्भ में है जिसमें रामप्रस्थ शाखा के श्री केतन किशोर की संपत्ति 05.09.2019 को आयोजित होने वाली ई—नीलामी के लिए रखी गई थी। हम ई—नीलामी से खाता वापस ले रहे हैं। अन्य सभी खाते /विवरण / नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगे।

दिनांक : 31.08.2019, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंव

मुरादाबाद एसएमई शाखा ए-16, गांधी नगर, रामपुर टेली नं. 0591-2491247

ईमेल : MoradabadSME.Ghaziabad@bankofindia.co.in

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 29.03.2019 जारी कर ऋणधारक मैं. मुनेश प्रोविजनल स्टोर एवं श्री मुनेश पुत्र श्री लखन सिंह (स्वामी) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रू 6,16,330. 58/- (रूपये छः लाख सोलह हजार तीन सौ तीस एवं अट्ठावन पैसे मात्र) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक 29.03.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक मैसर्स मुनेश प्रोविजनल स्टोर एवं श्री मुनेश पुत्र श्री लखन सिंह (स्वामी) तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 29.08.2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय राशि रू 6,16,330.58/- (रूपये छः लाख सोलह हजार तीन सौ तीस एवं अट्ठावन पैसे मात्र) के साथ 29.03.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा (सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना जारी करने के बाद, वसूली यदि कोई हो, घटाकर) उस पर आगे के चार्जेज के लिए बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्लांट एवं मशीनरी का दृष्टिबंधक (एलीमीटर, सेंटीफ्यूगल, रिल मशीन, सेफेटर, चक्की, न्यू मेट्रिक, रोल मशीन, पानी बाराम, वेटा टैंक, साफ्ट, पुली बेल्ट, डस्ट प्लांट, मशीनरी फिटिंग इत्यादि)

दिनांक : 29.08.2019 बैंक ऑफ इंडिय मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकार स्थान : मुरादाबाद

> ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड पंजी. कार्या.: ए-23, मंदािकनी एन्क्लेव, अलकनंदा जीके Ⅱ,

नई दिल्ली-110019 टेली फैक्स: 011-40562329, वेबसाईट: www.trinityasia.in, ई-मेलः trinityleage@trinitygroup.ind.in

CIN No. L93000DL1988PLC031953

31वीं वार्षिक साधारण सभा

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड की 31वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 25 सित. 2019 को 12.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ए 23, मंदािकनी एन्क्लेव, अलकनंदा, जीके-II, नई दिल्ली-110019 में आयोजित की जायेगी जिसमें 31वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना में शामिल व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

उपस्थिति पर्ची तथा प्रॉक्सी प्रपत्र के साथ कम्पनी की 31वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना पंजीकृत डाक से उनके पंजीकृत पते पर सदस्यों को भेजी गई है तथा जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट/कम्पनी के पास अपने ई-मेल पते दर्ज कराये हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई है। इन दस्तावेजों को www.trinityasia.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 यथा संशोधित के नियम 20 तथा अधिनियम के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों में यह कम्पनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। बुधवार, 18 सित. 2019 की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम स्थल के किसी अन्यत्र स्थान से सेन्ट्रल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा 31वीं वार्षिक साधारण सभा की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।

सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि: 1. 31वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया

2. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 22 सितम्बर, 2019 (10.00 बजे पूर्वा.) को शुरू होगी। 3. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 (05.00 बजे अप.) में बंद होगी।

4. रिमोट ई-वोटिंग की पात्रता सनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि बधवार, 18 सितम्बर, 2019 है। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये वे वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

. मतदान के लिये अधिकृत सदस्य ध्यान रखें किः क) मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट ई-वोटिंग पद्धत्ति सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जायेगी; ख) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सविधा उपलब्ध कराई जायेगी: ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन फिर से मतदान के लिये अधिकत नहीं होंगे. तथा घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मत-पत्र द्वारा एजीएम में मतदान करने के लिये योग्य होंगे।

. ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम में मतदान का स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से जांच-पडताल के लिये कम्पनी ने श्री मोहित सिंघल, कार्यरत कम्पनी सचिव (एसीएस 43204, सीपी 15995) को पर्यवेक्षक

. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें।

वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिये अधिकृत कोई भी सदस्य अपनी जगह उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिये एक प्रॉक्सी की नियक्ति कर सकते हैं। प्रॉक्सी के लिये कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। लेकिन, प्रॉक्सी की नियुक्ति करने वाले उपकरण एजीएम शुरू होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किये जाने चाहिए।

अधिकतम 50 वर्ष तक की उम्र के सदस्यों जो कुल योग में कम्पनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के अधिकतम 10% तक धारित करते हों तथा मताधिकार रखते हों. की ओर से एक व्यक्ति प्रॉक्सी का कार्य कर सकते हैं। कोई भी सदस्य जो मताधिकार से युक्त कम्पनी की कुल शेयर पूंजी में 10% से अधिक धारित करते हों प्रॉक्सी के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं तथा ऐसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिये प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 31 अगस्त, 2019

epaper.jansatta.com

ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड के लिए हस्ता./ धर्मेन्दर कमार

कम्पनी सचिव एम. नं. ए 45372 भागवत से मिले मौलाना मदनी, हिंदू-मुसलिम एकता पर जोर

देवबद , ३१ अगस्त (जनसत्ता)।

देश के अहम मुसलिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से बीती रात मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच हिंदू-मुसलिम एकता को बढ़ावा देने और भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं (मॉब लिंचिंग) सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों की यह मुलाकात संघ के दिल्ली स्थित कार्यालय केशव कुंज में हुई। मुलाकात करीब डेढ़ घंटे चली।

इसके लिए भाजपा के पूर्व संगठन महासचिव राम

लाल ने मुख्य भूमिका निभाई। इस मुलाकात के बारे में मौलाना मदनी ने शनिवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने देश की वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए अपनी ओर से संघ प्रमुख से मिलने की पहल की। मदनी के मुताबिक मोहन भागवत ने उनकी पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस दिशा में साथ मिलकर चलने पर सहमित। जताई। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान भीड़ द्वारा हत्या किए जाने से समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मदनी ने भागवत से कहा कि कई ऐसे मामले हैं, जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है, लेकिन गलतफहमी की वजह से दोनों समुदायों में दूरियां बढ़ती गईं। उन्होंने इस समस्या से निपटने में सहयोग की अपील की, जिस पर भागवत जी ने सकारात्मक रुख दिखाया।

चिन्मयानंद प्रकरण पीड़िता के परिजन दिल्ली खाना

शाहजहांपुर, ३१ अगस्त (भाषा)।

स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के दिया है जो इसे लेकर राजनीतिक लाभ निर्देश पर दिल्ली पुलिस की एक टीम शनिवार यहां से पीड़ित लड़की के माता पिता को उससे मिलवाने के लिए दिल्ली लेकर रवाना हो गई।

पीड़िता के पिता ने बताया कि आज दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्देश की प्रति देते हुए बताया कि सर्वोच्च अदालत के निर्देशानुसार उन्हें उनकी बेटी से मिलवाने के लिए दिल्ली चलना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से आई टीम में एक सब इंस्पेक्टर, एक महिला सब इंस्पेक्टर के अलावा चार पुलिसकर्मी आए थे और दो गाड़ियां उन्हें लेकर यहां से दिल्ली रवाना हो गई हैं। लड़की के पिता ने बताया कि अपनी बेटी से मिलने के लिए वह स्वयं एवं उनकी पत्नी और पीडिता का भाई और छोटी बहन जा रहे हैं।

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY (University under Section-3 of UGC Act 1956)

Elite Status & Centre of Excellence – Govt. Of Maharashtra NBA Accredited; 'A' Grade by MHRD; UNIVERSITY PAR EXCELLENCE Matunga, Mumbai- 400 019, India

NOTICE OF SPOT ROUND OF ADMISSION The spot round for the admission to M.Tech. Bioprocess Technology, M. Tech. Food Biotechnology and M. Tech. Pharmaceutical Biotechnology course vacant seats after admission conducted through JNU will be held on September 04, 2019. For more details and status of vacant seats kindly visit Institute's website www.ictmumbai.edu.in Registrar

एनआरसी को विफल कवायद बताया ममता ने

कोलकाता, ३१ अगस्त (भाषा)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरसी की अद्यतन अंतिम सूची को एक 'विफलता' बताया और कहा कि इसने उन सभी को उजागर कर

# Jaykay Enterprises Ltd.

हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

(CIN: L99999UP1961PLC001187) Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur - 208 001 (India) Ph. No. 91 512 2371478-81 Fax: 91 512 2332665

E-Mail-prabhat.mishra@jkcement.com; Website- www.jaykayenterprises.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to the

provisions of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ('the LODR Regulations'),an emergent meeting of the Board of Directors of the Company has been convened on Monday, September 2, 2019, on Shorter Notice with the consent of all the Directors at Kanpur, interalia to consider, approve and take on record Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the 1st Quarter ended on June 30, 2019 as per as per the Regulation 33 of LODR

This Information is also available on the Website of the Company and the Stock Exchange i.e www.bseindia.com. For Jaykay Enterprises Ltd.

(Prabhat Kumar Mishra) Sr. Manager (Legal) & Company Secretary

Place: Kanpur Date: August 31, 2019

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067 दूरमाषः 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

वृंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और / या वसुली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भूगतान करने के लिए कहा गया।

ī.	कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम / ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
	ऋण खाता सं. 626870625 एवं	30-नवम्बर-18* को बकाया रु. 14,43,611 / - (केवल चौदह लाख तैतालीस हजार छह सौ ग्यारह रुपए)	-2018	-2019	फ्लैट नं0 232, दूसरी मंजिल, गंगोत्री टॉवर, जीडीए, कौशांबी, कौशांबी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ निचले भूभाग का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।

हालाँकि, चूँकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का **भौतिक कब्ज़ा** अपने पास ले लिया है।

अचल सम्पत्तियों / प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्तियों / प्रतिभृत परिसम्पत्तियों पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा। अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभूत

वेशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित

परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट / आमंत्रित किया जाता है / जाते हैं। लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों से

अनुरोध है / हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें। स्थानः दिल्ली

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. दिनांकः 30.08.2019 प्राधिकृत अधिकारी

बैक ऑफ़ बझोदा चाणक्यपुरी शाखा, नई दिल्ली

'भुगतान और / या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400 020 ई-नीलामी विक्रय सूचना

Bank of Baroda

चल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी हेतु सौर्वजनिक सूचना ईएमडी जमा करने तथा प्रलेखीकरण की अन्तिम तिथि 29.09.2019 को सायं 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 की सं. 54) के अन्तर्गत बैंक के पास बन्धक चल सम्पत्ति का विक्रय जबकि, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत निर्गत सूचना के अनुपलान में निम्नलिखित ऋण खाता के अन्तर्गत निम्नलिखत सम्पत्ति / वाहन का कब्जा, इन्हें ''**जैसी है जहां है आधार, और जैसी है जो है आधार''** पर बेचने के अधिकार के साथ, ग्रहण कर लिया था, ताकि यहां नीचे विवरणितानुसार बैंक की बकाया देयराशि तथा उस पर चढ़े ब्याज की वसूली की जा सके, तथा जबकि बकाया देयराशि का प्रतिभृगतान करने में विफल होने के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगान्तर्गत, उक्त बन्धक सम्पत्ति / वाहन के विक्रय द्वारा बैंक की बकाया देयराशि की वसूली का प्रस्ताव रखा है। विक्रय का आयोजन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध ई—नीलामी मंच के माध्यम र चल सम्पत्तियों का विवरण

शाखा तथा खाता का स्वामी का चल सम्पत्ति का विवरण ईएमडी अधिकारी / जिनसे अनुसार राशि तिथि / समय खाता में जमा न्यूनतम बोली सम्पर्क साधना है, मांग सूचना तिथि की जानी है निरीक्षण तिथि तथा वृद्धि राशि व्यक्ति तथा सम्पर्क नं. शाखाः चाणक्यपुरी, सुमित पंजीकरण सं.: DL 12CE 8728 श्री यू. एस. पंवार रु. 4,14,986 ∕-30.09.2019 को 13.00 2,62,000/-इंटरमीडिअरी खाता मुख्य प्रबन्धक, पता : एनडीएमसी शॉपिंग साथ में दिनांक. बजे से 16.00 बजे कुमार पुत्र । पंजीकरण की तिथि : 13.06.2014 खाता सं. ाणक्यपुरी, नई दिल्ल कॉम्प्लेक्स, यशवन्त प्लेस, श्री सतीश | फिटनेस इस तिथि तक वैध : 12.06.2029 .से अप्रयुक्त ब्यार 00940015181219 पूर्व नियुक्ति के साथ चाणक्यपुरी, नई दिल्ली तथा अन्य प्रभार 5,000/-दुष्टिबंधन : बैंक ऑफ बडौदा आईएफएससी -मोबाइल : 882689352 कार्यालय समयावधि में खाता का नाम BARB0CHANAK 11.02.2016 वाहन मेक ऐंड मॉडल : हुंडई आई 10 स्पोर्ट्स ई–मेल आईडी : दिनांक 25.09.2019 से श्री सुमित कुमार कार (डीजल) chanak@bankofbar 26.09.2019 पूर्व. 11.00 विनिर्माण वर्ष : 03 / 2014 oda.co.in बजे से सायं 4.00 बजे सीटिंग क्षमता : 5 बियरिंग इंजन नं.: D3FAEM107504 चेसिस नं.: MALA851DLEM099210

विक्रय निम्न विवरणितानुसार नियमों तथा शर्तों के अधीन होगा :

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 30.08.2019

1. ई—नीलामी का आयोजन ''**जैसी है जहां है आधार, जैसी है जो है आधार और बिना उपाय आधार''** पर किया जा रहा है। ्रपाधिकृत अधिकारी के सर्वोत्त ज्ञान एवं सूचनानुसार यहां किसी सम्पत्ति पर कोई भारग्रस्तता नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदातागणों को अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति क

भारग्रस्तताओं, अधिकार तथा सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले दावों / अधिकारों / बकाया देयताओं के संबंध में अपने स्वयं की स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। यह ई—नीलामी सचना बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी अभिवेदन को संस्थापित नहीं करती तथा संस्थापित करती हुई नहीं समझी जाएगी। सम्पत्ति का विक्रय बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात समस्त

विद्यमान तथा भावी भारग्रस्तताओं के साथ किया जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभृत ऋणदाता किसी भी तरह से किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों हेतू उत्तरदायी नहीं होंगे। नीलामी–सह–विक्रय पोर्टल https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी विधि द्वारा संचालित होगा।

यहां इसमें ऊपर दी गई अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पर्तियों के पर्याप्त विवरण सम्मिलित करने की सावधानी बरती गई है। प्राधिकृत अधिकारी इस उदघोषणा में हुई किसी गलती, गलत–विवरण अथवा चूक हेत

्रइच्छुक बोलीदाताओं को सलाह है कि वे अपनी बोलियां जमा करने तथा ई–नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों तथा शर्तों हेतु पोर्टर

https://bob.auctiontiger.net देख लें और यहां इसमें उपरोक्त वर्णितानुार सम्पत्ति / सम्पत्तियों हेतु संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर लें। प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य से कम पर अथवा उसके बराबर के मूल्य पर नहीं बेचा जाएगा। नीलामी का प्रारंभ आरक्षित मूल्य से अधिक की एक वृद्धि पर किया जाएगा तथा बोलीदातागण यहां इसर उक्त वर्णित न्युनतम वृद्धिकारक राशि के साथ अपने प्रस्ताव को बढ़ाने ारा अपने मध्य बोलीदान की प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए मुक्त होंगे ।

धरोहर राशि जमा (ईएमडी) की 10 प्रतिशत रकम 29.09.2019 को सायं 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व पदनामित खाता, जिसके विवरण उपरोक्त तालिमा स्तंभ 8 में दिए गए हैं जहां आईएफएससी कोड क पांचवा अक्षर '0'(शून्य) है , में एनईएफटी / आरटीजीएस निधि अंतरण / डिमांड ड्राफ्ट (दिल्ली में भुग्तेय) के माध्यम से जमा की जाएगी। इच्छुक बोलीदातागण जो कि धराज जमा कर चुके हैं, उन्हें आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर पोर्टल पर उपलब्ध स्तंभों / क्षेत्रों के अनुसार 29.09.2019 को अथवा इससे पूर

निम्नलिखित प्रलेख अपलोड करने होंगे : (क) धराज जमा का साक्ष्य। (ख) विधिवत भरा गया बोली प्रपत्र। (ग) पहचान पत्र की स्वयं सत्यापित सत्यप्रति जिसमें फोटोग्राफ और आवासीय पता तथा इच्छूक बोलीदाता का भारत सरकार द्वारा निर्गत पैन

कार्ड समाविष्ट हो। प्रलेखों की मुल प्रतियां संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने हेतु उपलब्ध करानी होंगी। (ध) बोलीदान प्रक्रिया में प्रतिभागिता करने हेतु लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड व 10. इच्छुक बोलीदातागण पोर्टल https://bob.auctiontiger.net) पर अपनी लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते हैं। यदि इच्छुक बोलीदाता को लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बनाने, बोली जमा करने ई—बोली प्रक्रिया इत्यादि पर प्रशिक्षण लेने में किसी सहायता की आवश्यकता है तो वह इनसे सम्पर्क कर सकता है : मै. ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजिज लि. बी—704—5 वाल स्ट्रीट— । ।, ओरिएंट क्लब के सामने, निकट गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, जिनसे सम्पर्क किया जाना है वे व्यक्ति हैं श्री राम शर्मा – 06351896834 ई–मेल – Delhi@auctiontiger.net

ramprasad@auctiontiger.net , नीतीश झा— 7982880393, हेल्प लाइन नं: 079—61200595 / 520 / 548, **हेल्पलाइन ई—मेल आईडी — support@auctiontiger.net** ऑनलाइन वेब पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर अपलोडिंग हेतू तथा किसी सम्पत्ति संबंधित पूछताछ हेतू आप संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। सम्पर्क विवरण उपरोक्तानुसार दिए गए हैं और सम्पर्क करने का समय किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समयावधि में है। 11. केवल वैध प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड धारण करनेवाले और एनईएफटी / आरटीजीएस / डीडी के माध्यम से धराज भूगतान की अभिपृष्टि करनेवाले बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई—नीलामी में प्रतिभागित

करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी अथवा समस्त बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अलावा, प्राधिकृत अधिकारी के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए, चाहे कारण कुछ भी हो, नीलामी प्रक्रिया के समापन से पूर्व किसी भी समय नीलामी को स्थगित या निरस्त अथवा मुल्तवी कर सकते हैं या रोक सकते है अथवा नीलामी के नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं तथा इस संबंध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

12. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अन्तिम 5 मिनटों में डाली जाती है, तो समापन समय स्वतः ही अगले 5 मिनटों के लिए बढ जाएगा।

13. यदि बोलीदान प्रक्रिया के समापन पर कोई अन्य बोली प्राप्त नहीं होती है, तो बोलीदाता जिसने सर्वोच्च राशि (आरक्षित मृल्य से कम अथवा उसके बराबर नहीं) उद्धृत की है, तो उसे सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को क्रय राशि की 25 प्रतिशत रकम का भूगतान (पहले भूगतान की गई धरोहर राशि सहित) उसके पक्ष में बोली घोषित होने के तत्काल बाद अथवा अगले कार्यदिवसतव करना होगा। ऐसा करने में विफल होने पर धराज की राशि जब्त कर ली जाएगी। 14. केवल विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत रकम जमा करने से ही सफल बोलीदाता उसके पक्ष में विक्रय अभिपृष्टि का हकदार नहीं होगा। विक्रय इस संबंध में प्रतिभृत ऋणदाता द्वारा अभिपृष्टिकरण तथा ई—नीलामी

के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा। 15. यहां उपरोक्त क्रमांक 10 के नियमान्तर्गत राशि जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष विक्रय मूल्य राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय पूष्टिकरण किए जाने व ा5 (पन्द्रह) दिनों के अंदर जमा करनी होगी। यदि वह इस तरह राशि जमा करने में विफल होता है तो उसके द्वारा पहले जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी उसके विरुद्ध सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के नियमों के अन्तर्गत उनके पास उपलब्ध किसी एक अथवा अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

16. यदि बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों तथा व्ययों के साथ बैंक को देय बकाया धनराशि का भृगतान उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों द्वारा विक्रय हेतु निर्धारित तिथि को अथवा इससे पूर्व किसी भी समय क दिया जाता है, तो कोई विक्रय कार्रवाई संचालित नहीं की जाएगी।

17. पंजीकरण प्रभारों, स्टांप शुल्क, करों इत्यादि सहित समस्त सांविधिक देयराशियां / एटेंडेंट प्रभार / अन्य बकाया राशि का भुगतान क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। **18.** विक्रय प्रमाणपत्र उसी नाम में निर्गत किया जाएगा, जिसमें बोली जमा की गई है। 19. बैंक ने इसको ज्ञात भारग्रस्तताओं का प्रकटीकरण किया है। प्राधिकत अधिकारी अथवा बैंक ई—नीलाम के लिए रखी गई सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी प्रभार, धारणाधिकार, भारग्रस्तता, अथवा सरकार या किर्स

अन्य व्यक्ति को देय किसी बकाया राशि हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह है कि वे सांविधिक देयताओं सम्पत्ति कर के बकायों, बिजली बकाया इत्यादि सहित सम्पत्ति पर निर्धारित भारग्रस्तताओं के संबंध में अपने स्वयं की स्वतंत्र जांच-पडताल कर लें।

20. बोलीदाताओं को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पॉवर बैंक—अप इत्यादि है। बैंक ई—नीलामी को प्रभावित करनेवाले इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता कारणों अथव तकनीकी कारण अथवा कारणों / आकिस्मकताओं के कारण हेतू उत्तरदायी नहीं होगा। 21. बैंक यदि उचित समझता है तो किसी एक अथवा अधिक सम्पत्तियों का बोलीदान कर सकता है। अन्तिम मिनटों तथा सेकंडों में बोलीदान करने की आदत को बोलीदाताओं के स्वयं के हित में त्यागा जाना चाहिए। न तो बैंक न ही सेवा प्रदाता वेंटर की ओर से किसी विफलता / कमी (बिजली विफलता इंटरनेट विफलता इत्यादि) हेत उत्तरदायी होंगे। ऐसी विफलताजनक आकस्मिक स्थिति का निरोधन करने के लिए बोलीदाताओं से अनरोध है कि वे समस्त अनिवार्य व्यवस्थाएं / विकल्प तैयार करके रखें जैसे कि अपेक्षित बैक—अप पॉवर सप्लाई इत्यादि, ताकि वे विफलताजनक आकस्मिक स्थिति का निरोधन करने में समर्थ हों और नीलामी में सफलतापूर्वक प्रतिभागिता कर सकें। प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक

अलावा डिजिटल प्रमाणपत्र जो कि इन प्लेटफॉर्म्स हेतु लागू होगा, वह भी एसएचए2 एल्गोरिथम अनुपालक है। इस हेतु, प्रयोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास विंडोज एक्सर्प (एसपी3) / विंडोज विस्टा / विंडोज ७ उनके संबंधित पीसी / लैपटॉप पर संस्थापित है। विंडोज एक्सपी सर्विस पैक-3 की स्थिति में, यदि आपको कोई समस्या महसूस होती है, तो आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं, जो कि हमारे ई—नीलामी पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध है।

(सीसीए) द्वारा निर्गत नवीन इंटरऑपरेबिलिटी दिशानिर्देशों के अनुसार ई–प्रोक्यारमेंट एप्लिकेशन हेत् सिक्योर्ड सॉकेट लेयर (एसएसएल) प्रमाणपत्र एक नई एल्गोरिथम, एसएचए2 पर बनाया जाता है। इसवे

उधारकर्ता / गारंटर / बन्धककर्ता हेत् सरफॉएसि अधिनियम के अन्तर्गत 30 दिनों की सांविधिक विक्रय सूचना ऊपर वर्णित उधारकर्ता / गारंटरगणों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपर्युक्तानुसार बकाया राशि का अद्यतन ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान कर दें। ऐसा करने में विफल

होने पर सम्पित्तियों की नीलामी / विक्रय कर दिया जाएगा तथा शेष बकायाराशि, यदि कोई बचती है, उसकी वसूली उधारकर्ता / गारंटरों से ब्याज तथा लागतों के साथ की जाएगी। प्राधिकत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा

एडीएस करी प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतदहारा अपने दावों का प्रमाण 12, सितम्बर 2019 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तृत करने की मांग की जाती है। दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं। (बोर्ड के आदेश से)

दिनांक : 31 अगस्त 2019

त्थान : नई दिल्ली

रूप में कार्य करने हेतु चिहिनत ऋण शोध अक्षमता

एडीएस करी प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट देनदार का नाम कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 07/03/2016 प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार रजिस्टार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली निगमित / पंजीकृत है कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन नई दिल्ली- 110095

 कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीआईएन: U74900DL2016ULT292238 सीमित दायित्व पहचान संख्या कार्पोरेट देनदार के पंजीकत कार्यालय तथा प्रधान पंजीकृत कार्यालय: बी-280, विवेक विहार कार्यालय (यदि कोई) का पता कार्परिट देनदार के लंबंध में ऋण शोध अक्षमता 21.08.2019 (ऑर्डर की प्रति 29 अगस्त 2019 को प्राप्त हुई) ऋण शोध अक्षमुता समाधान प्रक्रिया के समापन की 16 फरवरी 2020 (दिवाला संकल्प प्रक्रिया शुरू होने की पूर्वानुमानित तिथि तारीख से 180वां दिन) अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और पंजीकृत सं: IBBI/IPA-001/IP-P01072/2017-18/11763 रजिस्ट्रेशन नम्बर 24-ए, पॉकेट-ए, डीडीए एलआईजी फ्लैटस. अंतरिम समाधान प्रोफोशनल का पता और ई-मेल. जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है। हरी नगर, नई दिल्ली-110064 ई-मेलः hka.consultants@gmail.com 10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का. पत्राचार हेत सीए हेमन्त गुप्ता प्रयुक्त, पता और ई-मेल 24-ए. पॉकेट-ए. डीडीए एलआईजी फ्लैटस. हरी नगर, नई दिल्ली-110064 ई-मेल:cirp.ads@gmail.com 12 सितंबर, 2019 11. दावा प्रस्तुत करने हेत् अंतिम तिथि 12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 लाग् नही चप-धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के लाग् नही

प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम) (क) संबंधित प्रपन्न और क) वेबलिकः http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) अधिकत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है : (ख) भौतिक पताः २४–ए, पॉकेट–ए, डीढीए एलआईजी पलैटस, हरी नगर, नई दिल्ली-110064 एतदहारा सुचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ–VI ने दिनांक 21 अगस्त. 2019 को एडीएस करी प्राइवेट सिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तृत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने किसी श्रेमी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, (लागू नहीं) जैसा कि प्रविद्धि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि

ह रूप में कार्य करने के लिए प्रविध्ति सं. 13 के समक्ष सचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि प्रपत्र सीए (लाग्-नहीं) में निदर्शित करेगा । सीए हेमन्त गुप्ता दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल कते एडीएस करी प्राइवेट लिमिटेड